

गोपनीय और कानूनी विशेषाधिकार के अधीन

ISGM क्लास ऐक्शन अपडेट: मई 2020

रॉबर्ट मच (Robert Mutch) बनाम ISG मैनेजमेंट Pty लिमिटेड

अपने लीगल टीम से अपडेट लें

ISG मैनेजमेंट (ISGM) के विरुद्ध क्लास ऐक्शन के लिए शाइन लॉयर्स (शाइन) में रजिस्टर करने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद।

अब जबकि अदालत ने निर्धारित कर दिया है कि यह मामला क्लास ऐक्शन के तौर पर चलेगा, तो हम आपको समीक्षा देने, नीचे लिटिगेशन फंडिंग अग्रिमेंट को मानने और सहमत होने के लिए आमंत्रित करते हैं।

संक्षेप में कहें, तो लिटिगेशन फंडिंग अग्रिमेंट आपके और लिटिगेशन लेंडिंग सर्विसेज लिमिटेड (LLS) के बीच निम्नांकित शर्तों पर ISGM के विरुद्ध आपके क्लेम को फंड करने का करार है:

- LLS सभी व्ययों का फंड प्रदान करेगा, 80% शाइन लॉयर्स(Shine Lawyers) की प्रॉफेशनल फीस का भुगतान करेगा और लीड ऐप्लिकेंट को कोर्ट द्वारा दिए आदेशों के तहत किसी ऐडवर्स ऑर्डरों का भुगतान करेगा। मामले के अंत में शाइन लॉयर्स(Shine Lawyers) अपनी फीस का 20% छोड़ देगा।
- LLS तथा शाइन लॉयर्स (Shine Lawyers)आपसे प्राप्त हुई किसी प्रॉसीड्स के अलावा कानूनी लागतों तथा व्ययों के मदद में होने वाले किसी भुगतान की मांग नहीं करेंगे।
- दावा यदि सफल होता है, तो आपको LLS या शाइन लॉयर्स को कोई कानूनी लागत अदा नहीं करनी होगी।
- इसके एवज में LLS निम्नानुसार किसी प्रॉसीड्स का एक शेयर लेगा:
 - 25%, दावा यदि अनुकूल तरीके से हल होता है और प्रॉसीड्स जून 2020 तक प्राप्त हो जाते हैं;
 - 30%, दावा यदि अनुकूल तरीके से हल होता है और प्रॉसीड्स जून 2020 के बाद प्राप्त हो जाते हैं; या
 - जैसा कि कोर्ट द्वारा अन्य रूप में मंजूर किया जाता है।

लिटिगेशन फंडिंग अग्रिमेंट से सहमत होकर आप निम्नांकित कार्य करेंगे:

- ISGM के विरुद्ध मामले की सुनवाई जारी रखने के लिए लीड ऐप्लिकेंट, रॉबर्ट मच(Robert Mutch) की सहायता करेंगे, जिसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि LLS के साथ फंडिंग के लिए सहमत ग्रुप मेम्बरों की पर्याप्त संख्या हो;
- यह सुनिश्चित करेंगे कि लिटिगेशन फंडिंग अग्रिमेंट में वर्णित राशि के भीतर की कोई राशि किसी जजमेंट या सेटमेंट धनराशि से कटौती कर ली जाएगी, ताकि मामले के सफल समापन पर LLS को भुगतान किया जा सके; तथा
- यह सुनिश्चित करेंगे कि LLS आपके विशेष दावे के मुकदमे की लागत अदा करेगा, जिसमें असफल रहने पर कोई ऐडवर्स लागत भी शामिल होगा।

मामले के सफल समापन और अदालत की स्वीकृति पर आप और अन्य ग्रुप सदस्यों को प्राप्त प्रॉसीड्स से निम्नांकित धनराशियों का भुगतान करगा होगा:

1. LLS द्वारा फंड किए व्यय;
2. LLS द्वारा फंड की गई शाइन की कानूनी लागतों का 80% हिस्सा;
3. LLS के कमीशन के लिए एक शेयर (या तो 25% अथवा 30%); तथा
4. शाइन द्वारा वहन किए अनफंडेड लीगल लागतों का शेष 20%, इन फीसों पर 25% के उत्थान के साथ।

न ही LLS या न ही शाइन आपसे ISGM से प्राप्त किए जाने वाले प्रॉसीड्स के अलावा, कानूनी लागतों तथा प्रतिपूर्तियों के एवज में किसी भुगतान की मांग नहीं करेगा। यदि आपका दावा असफल हो जाता है, तो आपको शाइन लॉयर्स या LLS को कोई कानूनी लागत का भुगतान नहीं करना होगा।

लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट ऑनलाइन को एक्सेस करने और सहमत होने के लिए, कृपया नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि बटन आपको एक यूनीक लिंक पर ले जाएगा, जिसे **किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए।**

लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट के यूनीक लिंक को एक्सेस करें

यदि आप पेपर फॉर्म की मदद से लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट से सहमत होना चाहते हैं, तो कृपया [यहां फॉर्म डाउनलोड करें](#), तब फॉर्म को प्रिंट कर इस ईमेल के बॉटम पर दिए ऐड्रेस पर मेल करें।

कृपया ध्यान दें कि क्लास ऐक्शन में आपकी भागीदारी को गोपनीय रखा जाएगा और उसे केवल आपकी पूर्व सहमति पर ही अग्रांकित पक्षों के समक्ष प्रकट किया जाएगा:

- अदालत के समय, यदि गोपनीय आधार पर कोई सेटलमेंट या सफल जजमेंट हो; तथा/या
- ISGM के समक्ष, यदि ऐसा करना सेटलमेंट या जजमेंट के एक हिस्सा के रूप में आवश्यक हो, ताकि आपके क्लेम तथा/या भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

हम इस मामले की संभावनाओं में प्रबल विश्वास करते हैं और न्याय पाने के लिए अथक रूप से लड़ेंगे, और आपको वे लाभ अवश्य मिलेंगे जिनके आप हकदार हैं।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने साथी तकनीशियनों को इस क्लास ऐक्शन और [रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया](#) से अवगत कराएं, ताकि इस केस को अधिक से अधिक सपोर्ट हासिल हो सके।

यदि आपको इस अपडेट पर या क्लास ऐक्शन के किसी आयाम पर कोई प्रश्न पूछना हो, तो कृपया [\(02\) 8754 7246](tel:0287547246) या 1800 316 471 पर कॉल कर या isgmclassaction@shine.com.au पर मेल कर हमसे बेझिझक संपर्क करें।